

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

गैर ऋणी कृषकों हेतु बीमा प्रस्ताव पत्र

मौसम खरीफ /रबी _____ साल _____

प्रस्ताव क्रमांक: _____

बैंक/सीएससी/एजेण्ट/बीमा मध्यस्थ _____

नाम: _____

कोड: _____

मोबाईल नम्बर: _____

कृषक का विवरण

नाम: श्री/श्रीमती: _____	पता: _____
पिता/पति नाम: _____	_____
मोबाईल नम्बर: _____	_____
आधार नम्बर: _____	लिंग: <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> स्त्री <input type="checkbox"/> अन्य
ई-मेल पता: _____	पोस्ट आफिस नाम: _____
वर्ग: <input type="checkbox"/> अ.जा. <input type="checkbox"/> अ.ज.जा. <input type="checkbox"/> अन्य	शहर/गांव नाम: _____
कृषक वर्ग: <input type="checkbox"/> लघु <input type="checkbox"/> सामान्य <input type="checkbox"/> अन्य	जिला: _____ पिन कोड <input type="text" value=""/>
कृषक समुदाय - स्वयं/ बटाईदार/साझेदार	राज्य: _____

बैंक विवरण

बैंक का नाम: _____	IFS/NEFT CODE: _____
खाता संख्या: _____	खाता प्रकार (बचत/चालू/अन्य): _____
बैंक शाखा: _____	फोन नम्बर: _____
नामिनी का नाम: _____	नामिनी का संबंध: _____

अधिसूचित क्षेत्र का विवरण

राज्य	जिला	तहसील	गिरदावर वृत्त	पटवार वृत्त	ग्राम

बीमा हेतु प्रस्तावित फसल एवं क्षेत्र का विवरण

कृषक वर्ग काशतकार/बटाईदार पट्टेदार	खसरा/ खतौनी नम्बर	फसल का नाम	बीमित क्षेत्र (हे.)	बीमित राशि प्रति हेक्टेयर	कुल बीमित राशि	प्रीमियम प्रति हेक्टेयर	कृषक प्रीमियम

बीमित कृषक का घोषणापत्र

मैं/हम स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि प्रस्ताव फॉर्म/व्यक्तिगत कथन, घोषणापत्र और संबद्ध दस्तावेजों में किसी भी झूठे या गलत या त्रुटिपूर्ण बयान, भ्रामक जानकारी या गलतबयानी की स्थिति में, या फिर पॉलिसी से कोई लाभ पाने के उद्देश्य से मेरी/हमारी या हमारी ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रस्तावित जोखिम की स्वीकृति पर प्रभाव डालने वाले किसी तथ्य को छुपाये जाने की स्थिति में बीमा कंपनी पॉलिसी को रद्द कर सकती है।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे पास इस संपत्ति और/या इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमित की जाने वाली फसल के कानूनी स्वत्वाधिकार हैं। मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, इस बात की घोषणा करते हैं और आश्वासन देते हैं कि ऊपर दिये गये कथन मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास में सच्चे, सटीक और संपूर्ण हैं। मैं/हम बीमा को भविष्य के दावों के लिये प्रभावी बनाना चाहते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रस्ताव और घोषणापत्र मेरे और _____ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच किये जाने वाले अनुबंध का आधार होंगे और मैं/हम कंपनी द्वारा लागू की गयी शर्तों के अधीन पॉलिसी को स्वीकार करने की सहमति देता हूँ/देते हैं।

मैं/हम स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि पॉलिसी को प्रीमियम की राशि वास्तविक रूप में प्राप्त होने पर जारी किया जायेगा और जोखिम बीमा कंपनी को पूरा प्रीमियम प्राप्त होने के बाद ही शुरू होगा।

दिनांक: _____

स्थान: _____

बीमित कृषक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*इस आवेदन के साथ आधारकार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें बैंक का नाम, आवेदक का नाम, आईएफएस कोड, खाता संख्या का उल्लेख हों, बुवाई प्रमाणपत्र/नवीनतम खसरा खतौनी की प्रति संलग्न करें।

फसल बुवाई प्रमाण-पत्र

मौसम: _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती: _____

पिता/पति श्री: _____ इनके द्वारा ग्राम: _____

पटवार वृत्त: _____ गिरदावर वृत्त: _____ तहसील: _____

जिला: _____ राज्य मध्य प्रदेश में खसरा/खतौनी संख्या _____ में फसल _____

दिनांक (बुवाई की दिनांक) _____ को रकबा _____ हेक्टेयर में बोई गई है।

श्री/सुश्री/श्रीमती: _____ इस फसल मौसम के लिए स्वयं काशतकार/बटाईदार साझेदार है।

(हस्ताक्षर एवं मुहर)
पटवारी/पंचायत सचिव

कृषक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम: _____

मोबाईल नम्बर: _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

फसल बुवाई प्रमाण-पत्र

मौसम: _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती: _____

पिता/पति श्री: _____ इनके द्वारा ग्राम: _____

पटवार वृत्त: _____ गिरदावर वृत्त: _____ तहसील: _____

जिला: _____ राज्य मध्य प्रदेश में खसरा/खतौनी संख्या _____ में फसल _____

दिनांक (बुवाई की दिनांक) _____ को रकबा _____ हेक्टेयर में बोई गई है।

श्री/सुश्री/श्रीमती: _____ इस फसल मौसम के लिए स्वयं काशतकार/बटाईदार साझेदार है।

(हस्ताक्षर एवं मुहर)
पटवारी/पंचायत सचिव

कृषक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम: _____

मोबाईल नम्बर: _____

स्थान: _____

दिनांक: _____